

पुलिस अधीक्षक नगर बदायूं द्वारा थाना बिनावर का औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाने के संबंध में ।

आज दिनांक 04-07-2022 को पुलिस अधीक्षक नगर जनपद बदायूं प्रवीन सिंह चौहान द्वारा थाना बिनावर का औचक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष बिनावर अजब सिंह थाना कार्यालय पर मौजूद मिले । सीसीटीएनएस पर कम्प्यूटर ऑपरेटर फईम अहमद, थाना कार्यलेख जीडी पर कां0 947 नितिन कुमार, महिला हेल्प डेस्क पर म0कां0 1491 सीमा, साइबर हेल्प डेस्क पर म0कां0 252 किरन देवी व संतरी पहरा ड्यूटी पर हो0गा0 2060 वीरपाल मौजूद मिले । सर्वप्रथम महोदय द्वारा थाना पर आये फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा संबंधित को त्वरित निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया । तदुपरान्त थाना परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, हवालात, मालग्रह, बैरक, आदि का मुआयना किया गया । बैरक का निरीक्षण करते हुए साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया गया । थाना पर आगन्तुकों के लिये उचित व्यवस्था एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया । महोदय द्वारा महिला हेल्प डेस्क को गहनता से जांचा परखा गया जिसमें आवेदिका/आने वाली पीड़िता का नाम,पता,मो0नं0 एवं समस्या का स्पष्ट उल्लेख तथा समस्या का निराकरण हेतु की गयी कार्यवाही एवं समस्या के निदान का विवरण उल्लेखित करने के संबंध में जानकारी दी गयी एवं इसी प्रकार कम्प्यूटर में भी उल्लेख किया जाये। सीसीटीएनएस कार्यालय पर मौजूद कम्प्यूटर ऑपरेटर को आनलाइन शिकायत सम्बन्धी प्रार्थना पत्र का निस्तारण, थाना समाधान दिवस पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों को आईजीआरएस पोर्टल पर अपलोड करने हेतु तथा थाने पर समस्त अधि0/कर्म0गण को सीसीटीएनएस के प्रशिक्षण देने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये । समस्त अधि0/कर्म0गण को ड्यूटी के दौरान बाजार,सर्साफा दुकान, चोराहों गली नुक्कड़ों आदि पर सतर्क दृष्टि बनाये रखने तथा थाना क्षेत्र में सतर्कतापूर्ण भ्रमणशील रहने तथा पुलिस की सक्रियता बनाये रखने एवं नियमित रूप से बैंक चैकिंग,एटीएम चैकिंग, मुख्य चौराहों/ मुख्य सड़क/ढाबों/ होटल/ बस स्टैंड/पेट्रोल पंप एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर चैकिंग तथा रात्रि गश्त करने तथा आम जनता से अच्छा व्यवहार करने हेतु व सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को कायम रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूं ।